



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26]
No. 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 2003 (आषाढ़ 7, 1925)
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 2003 (ASADHA 7, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 मई 2003

सं. डीपी/एडी.5/2003/01889/3/5/2003-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर श्री धन किशोर को 06.05.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक के. अ. ब्यूरो में सीधी भर्ती द्वारा लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

एस. एस. गुलिया
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

सं. डीपी/एडी.5/2003/01892/3/17/87-प्रशा.5--राष्ट्रपति ने श्री विनोद कुमार शर्मा, वरिष्ठ लोक अभियोजक, के. अ. ब्यूरो को 28.04.2003 पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के. अ. ब्यूरो में उप विधि सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।

एस. एस. गुलिया
प्रशासन अधिकारी (स्था.)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 जून 2003

सं. 13/5/2002-प्रशा.एफ.एस.--राष्ट्रपति, श्री नरेन्द्र सिंह, उप सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख को न्यायालयिक विज्ञान निदेशालय के अधीन सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख कोलकाता के कार्यालय में दिनांक 31.5.2003 (अपराह्न) से वेतनमान रु. 12,900-375-16,500/- में सरकारी परीक्षक प्रश्नास्पद प्रलेख के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

डा. एम. एस. राव
निदेशक (एफ.एस.)

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 जून 2003

सं. 3/2/2002-प्रशा.--सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण श्री एल. सी. अमरनाथन, भा. पु. से. (उड़ीसा 67) महानिदेशक, पुलिस

अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ने दिनांक 31 मई 2003 अपराह्न से महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

चित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
प्रतिभूति कागज कारखाना

होशंगाबाद-461005, दिनांक 9 जून 2003

सं. 7(119)/2330--विभागीय पदोन्नति समिति वर्ग 'ख' की अनुशंसा के आधार पर श्री एम. एल. जोशी, तकनीकी अधिकारी (उत्पादन) की परीक्षा अवधि दिनांक 28.03.2003 से सहर्ष समाप्त करते हैं।

अश्विनी कुमार
महाप्रबन्धक

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं प्राधिकार), गुजरात
अहमदाबाद, दिनांक 2003

महालेखाकार (ले. एवं प्रा.) ने निम्नलिखित मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-II (अराजपत्रित) को मंडल लेखा अधिकारी ग्रेड-I (राजपत्रित) समूह "ब" वेतनमान रु. 6,500-200-10,500/- में दिनांक 3.1.2003 से पदोन्नति दी है :-

क्रमांक	नाम	पदोन्नति का दिनांक
1.	श्री डी. पी. पंचाल	3.1.2003

ह/- अपठनीय
उप महालेखाकार (ले. एवं ह.)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-I का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश
हैदराबाद-500004, दिनांक 9 जून 2003

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) "लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल)" के संवर्ग को रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी(यों) का नाम	क.आ.सं. तथा तिथि	पदोन्नति तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	पी. वेणुगोपाल राव	32/2.6.2003	2.6.2003 (पूर्वाह)

1	2	3	4
2.	किशन राव	32/2.6.2003	2.6.2003 (अपराह)
3.	टी. नागिरेड्डी	32/2.6.2003	2.6.2003 (पूर्वाह)
4.	पीफले प्रमोद	32/2.6.2003	2.6.2003 (पूर्वाह)

उपर्युक्त पदोन्नति का उनके वरिष्ठों के दावों, यदि हों, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय/भारत का उच्चतम न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में लेखित याचिकाओं को परिणामों के बशर्ते आदेशित है। भारत सरकार का ज्ञा. सं. एक 7/1/80-स्था. (पी.1) दि. 26.9.1981 तथा एक 13/26/82 स्था. (पी.1) दिनांक 08.02.1983 के अनुसार उन्हें अपना विकल्प एक माह के अन्दर देना होगा।

अनीता शाह
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) को स्वेच्छिक अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	डी. जीसफ	स.ले.प.अ.	31.05.2003 AN

अनीता शाह
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-I, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/लेखापरीक्षा अधिकारियों (सिविल) को स्वेच्छिक अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं :-

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री		
1.	एम. अप्पन्ना	व.ले.प.अ.	31.05.2003 अपराह्न
2.	वाई. वी. सुब्बाराव	व.ले.प.अ.	31.05.2003 अपराह्न
3.	एम. सर्वेश्वर शास्त्री	व.ले.प.अ.	31.05.2003 अपराह्न
4.	बी. सी. एच. गोपाल कृष्णा	व.ले.प.अ.	31.05.2003 अपराह्न
5.	टी. नागेश्वर शास्त्री	ले.प.अ.	31.05.2003 अपराह्न

अनीता शाह
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 10 जून 2003

सं. का. स्था.(हक)-1/पेन/10-2/2003-2004--महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय, केरल, तिरुवनन्तपुरम के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख को सरकारी सेवा से निवृत्त हुए :--

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तारीख	अभुक्तियाँ
1.	श्री फ्रांक्लिन नोक्स वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.5.2003 अपराह्न	अधिवाधिकी
2.	श्री जी. चंद्रशेखरन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.5.2003 अपराह्न	अधिवाधिकी
3.	श्रीमती एन. के. पद्मजादेवी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.5.2003 अपराह्न	अधिवाधिकी
4.	श्रीमती टी. सुकुमारी अम्मा वरिष्ठ निजी सचिव	31.5.2003 अपराह्न	अधिवाधिकी
5.	श्री जी. पी. राजेन्द्रन वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.5.2003 अपराह्न	अधिवाधिकी
6.	श्री पी. एम. हुसैन कुंजी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	31.5.2003 अपराह्न	अधिवाधिकी
7.	श्री के. रामकृष्ण पिल्लै सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	31.5.2003 अपराह्न	अधिवाधिकी

सी. के. नारायणन

उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग

(कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 10 जून 2003

सं. प्रशा.-1/1419/4/जिल्द-III--निम्नलिखित परिवीक्षार्थियों की, प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तारीख से, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के कनिष्ठ समयमान में पुष्टि की जाती है :--

क्रम सं.	नाम	वैध	पुष्टिकरण की तारीख
	सर्व/श्री		
1.	हरि हर मिश्रा	1998	03.01.2001
2.	संजय वर्मा	1998	03.01.2001
3.	सुधीर आर. एन.	1998	04.01.2001
4.	उमा शंकर प्रसाद कुशवाहा	1998	03.01.2001
5.	परवीत सिंह	1998	03.01.2001
6.	एम. शंकर	1998	03.01.2001

कुप्पास्वामी

रक्षा लेखा सहायक महानियंत्रक (प्रशा.)

लघु उद्योग मंत्रालय

विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2003

सं. ए-19018/1659/2003-प्रशा. (राज.)--विकास आयुक्त (लघु उद्योग), लघु उद्योग सेवा संस्थान, नागपुर में लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण), श्री चक्रधर एस. दोडके को लघु उद्योग विकास संगठन अंतर्गत रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान, तूरा (लघु उद्योग सेवा संस्थान, गुवाहाटी अधीन) में सहायक निदेशक (ग्रेड-II) (औद्योगिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण) स्थानापन्न आधारित के पद पर दिनांक 20.05.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै
उप निदेशक (प्रशा.)

खान मंत्रालय

(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700016, दिनांक 10 जून 2003

सं. 2013/बी/ए-19011/(1-एस.एस.)/92/19ए--यादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में व्याख्याता के रूप में अपनी नई नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने हेतु महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा विधिवत स्वीकृत किए गए त्यागपत्र पर डॉ. संजय सान्याल ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद का कार्यभार 06.01.2002 (अपराह्न) से छोड़ दिया।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

(भारतीय खान ब्यूरो)

दिनांक 30 मई 2003

नागपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2003

सं. ए-19011/75/2002-स्था. पी.पी.--श्री के. एस. नागराज राव, सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.5.2003 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

एस. के. बातव
प्रशासन अधिकारी

सं. 21/9(1)/2003-सीसीएस/15--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री सी. एन. गाडगिल, उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-), क्रय और भंडार निदेशालय, मुम्बई को दिनांक 31.03.2003 (पूर्वाह) से दिनांक 30.04.2003 (अपराह) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी निदेशालय में संयुक्त नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) (वेतनमान रु. 12,000-16,500/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन
उप सचिव

सं. ए-19011/211/2002-स्था. ए.पी.पी.--श्री पी. एन. देव, अधिक्षण अधिकारी अयस्क प्रसाधन, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.5.2003 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

एस. के. बातव
प्रशासन अधिकारी

सं. 22/3(3)/2002-सीसीएस/16--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एन. डी. खोपकर, सहायक क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-10,500/-), क्रय और भंडार निदेशालय, मुम्बई को दिनांक 05.05.2003 (पूर्वाह) भावी आदेश होने तक उसी यूनिट में क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन
उप सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुम्बई-94, दिनांक 4 जून 2003

सं. पठनिप/10/1/प्रशा./593--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ने इस परिषद की श्रीमती सुमाश्विका पनिकर, सहायक, को इसी परिषद में दिनांक 10.3.2003 से 11.4.2003 तक रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है। यह नियुक्ति श्री सी. के. विजयन, सहायक कार्मिक अधिकारी के स्थान पर की गई है, जिन्हें पदोन्नत किया गया है।

एन. एस. नायर
प्रशासन अधिकारी-III

सं. 22/7(1)/2002-सीसीएस/14--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री एम. एस. गणेशन, सहायक क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 6,500-10,500/-), एमआरपीयू, क्रय और भंडार निदेशालय, चेन्नई को दिनांक 13.01.2003 (अपराह) से दिनांक 14.02.2003 (पूर्वाह) तक की अवधि हेतु तदर्थ आधार पर उसी यूनिट में क्रय अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन
उप सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 28 मई 2003

सं. 20/3(3)/2002-सीसीएस/13--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री पी. मोहन बाबू, प्रशासन अधिकारी-II (वेतनमान रु. 7,500-12,000/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 21.04.2003 के पूर्वाह से भावी आदेश होने तक प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर में प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन
उप सचिव

सं. 20/3(1)/2003-सीसीएस/17--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री पी. ओ. करुणाकरन, मुख्य प्रशासन अधिकारी (वेतनमान रु. 12,000-16,500/-), नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद को दिनांक 03.05.2003 (पूर्वाह) से भावी आदेश होने तक उसी यूनिट में उप मुख्य कार्यपालक (प्रशासन) (वेतनमान रु. 14,300-18,300/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन
उप सचिव

सं. 26/2(1)/2003-सीसीएस/18--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री जी. एल. हुरिवाल, उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 10,000-15,200/-), निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबन्ध निदेशालय, मुम्बई को दिनांक 12.05.2003 (पूर्वाह) से भावी आदेश होने तक उसी निदेशालय

में मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 12,000-16,500/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

उमा महादेवन
उप सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 13 जून 2003

सं. 26/2(1)/2003-सीसीएस/19--इस विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई के श्री एम. सत्यनारायणा, मुख्य सुरक्षा अधिकारी (वेतनमान रु. 12,000-16,500/-) दिनांक 30.04.2003 (अपराह) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500062, दिनांक 11 जून 2003

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-1603/848--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री डी. चेन्ना कृष्णा रेड्डी, वैज्ञानिक अधिकारी, "ई" (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/-) ने दिनांक 31.05.2003 (अपराह) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी. वाई. प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/प्रशा./पेंशन/का.कू.-1038/849--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री वी. नालय्या, वैज्ञानिक अधिकारी, "सी" (वेतनमान रु. 8,000-275-13,500/-) ने दिनांक 31.05.2003 (अपराह) से अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है।

टी. वाई. प्रह्लाद राव
प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 10 जून 2003

सं. पखनि-51(59)/2002-पेन/1102--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी

ने अधिवर्षिता प्राप्त करने के दौरान उनके समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	श्री आर. श्रीहरी, वैज्ञानिक अधिकारी-एच	31.05.2003	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर

के. मोहन राव
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

जल संसाधन मंत्रालय
(केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड)

एन.एच.-4, फरीदाबाद-121001, दिनांक 12 जून 2003

सं. 3-1421/2003-स्था.ई.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री के. एन. आर. पिल्लई को दिनांक 2.5.2003 (पूर्वाह्न) में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में प्रभारी वेधक के पद पर सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) रु. 7,500-250-12,000/- में अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है।

आशीष चक्रवर्ती
अधिशासी अभियन्ता

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार
(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स वर्मा ब्राइलर्स फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 जून 2003

सं. 560(3)/05/30578/2531--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स वर्मा ब्राइलर्स फार्म्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दिनेश चन्द्र
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सन्तुष्टी फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 जून 2003

सं. 560(3)/55/078246/2589--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि इस तारीख से एक मास के अवसान पर मैसर्स सन्तुष्टी फार्मान्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

एम. के. बागड़ी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कोर टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 3 जून 2003

सं. 560(3)/एल.सी./8026--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स कोर टेक्नालॉजी प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स राधिका पालमा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

कानपुर-1, दिनांक 4 जून 2003

सं. एल.सी./560(3)/24481--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स राधिका पालमा इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है, तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

डी. आर. चतुर्वेदी
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स केमलॉट इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 जून 2003

सं. 560(5)/17382/329--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती

है कि मैसर्स केमलॉट इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स ओसीअन फिन्वैस्ट प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 जून 2003

सं. 560(5)/19111/330--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स ओसीअन फिन्वैस्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एस. एन. बी. इन्वेस्टमेन्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 जून 2003

सं. 560(5)/15687/331--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एस. एन. बी. इन्वेस्टमेन्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जम्पस पोर्टफोलियो मैनेजमेन्ट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 5 जून 2003

सं. 560(5)/15781/332--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जम्पस पोर्टफोलियो मैनेजमेन्ट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिवान चन्द
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गुरदेश फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 9 जून 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/14128/1756--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स गुरदेश फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सुपर लीजिंग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 09 जून 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/15561/1800--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स सुपर लीजिंग एण्ड फाईनान्स लिमिटेड का नाम इन के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एम. जे. फायनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 09 जून 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/15879/1766--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एम. जे. फायनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इन के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स एस. एस. स्पन पाईप प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 09 जून 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/17261/1803--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स एस. एस. स्पन पाईप प्राईवेट लिमिटेड का नाम इन के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स दरलाघाट ग्रीनफील्ड एण्ड अलाईड सर्विसेज लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 09 जून 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/17761/1797--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दरलाघाट ग्रीनफील्ड एण्ड अलाईड सर्विसेज लिमिटेड का नाम इन के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स जुनेजा सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 09 जून 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/18465/1806--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स जुनेजा सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इन के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीवान चन्द
कम्पनी पंजीकार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स दरलाघाट रेकेशनल एण्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 9 जून 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/17760/1809—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स दरलाघाट रेकेशनल एण्ड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीवान चन्द

कम्पनी पंजीकार

पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स न्यू माथारू सर्विस स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 09 जून 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/17749/1812—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स न्यू माथारू सर्विस स्टेशन प्राईवेट लिमिटेड का नाम इन के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीवान चन्द

कम्पनी पंजीकार

पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स पास्क प्लान्टेशन लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 09 जून 2003

सं. आर.ओ.सी./560(3)/15879/1815—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पास्क प्लान्टेशन लिमिटेड का नाम इन के प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

दीवान चन्द

कम्पनी पंजीकार

पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स सनसाईन लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 10 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./एस.टी.ए./560(3)/6684/709—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स सनसाईन लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि

इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह

कम्पनी रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स हरीओम ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 10 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./एस.टी.ए./560(3)/6799/712—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स हरीओम ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह

कम्पनी रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स महाबली मेमोरियल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 10 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./एस.टी.ए./560(3)/6761/715—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स महाबली मेमोरियल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह

कम्पनी रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स गनी पटेल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक 10 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./एस.टी.ए./560(3)/6874/918—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स गनी पटेल हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह

कम्पनी रजिस्ट्रार

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स दवन होर्टिकल्चरिस्ट प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 10 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./एस.टी.ए./560(3)/6232/721-कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स दवन होर्टिकल्चरिस्ट प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स बेतवा कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 10 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./एस.टी.ए./560(3)/6271/724-कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स बेतवा कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स झुलेलाल बेनिफिट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./560(3)/769-कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स झुलेलाल बेनिफिट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स कासबी चैस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./560(3)/772-कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स कासबी चैस प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स महानदी एक्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./560(3)/775-कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स महानदी एक्स्ट्रक्शन्स लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स विश्व ब्राह्मण प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./560(3)/778-कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स विश्व ब्राह्मण प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स फर्नब्रास हीट एक्सचेंजर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./560(3)/781--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स फर्नब्रास हीट एक्सचेंजर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

मेहताब टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कटक-753001, दिनांक 11 जून 2003

सं. आरओसी/टीएस/560/4659/622--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

क्रमांक	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-04659	मैसर्स एसोसिएटेड इंजीनियर्स एण्ड ईस्कर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड।

आलोक सामन्तराय
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स परफैक्ट कंस्ट्रक्शंस इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./560(3)/784--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स परफैक्ट कंस्ट्रक्शंस इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कटक-753001, दिनांक 11 जून 2003

सं. आरओसी/टीएस/560/2980/623--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

क्रमांक	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01.	15-02980	मैसर्स क्रिएटिव सिक्युरिटी एजेन्सीज (उड़ीसा) प्राईवेट लिमिटेड।

आलोक सामन्तराय
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स आस्बर्ट फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./560(3)/787--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स आस्बर्ट फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि इसके प्रतिकूल कोई कारण न दर्शाया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा एवं कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

नौबत सिंह
कम्पनी रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़

कटक-753001, दिनांक 11 जून 2003

सं. आरओसी/टीएस/560/4929/624--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

क्रमांक	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
01	15-04929	मैसर्स लुनार हॉस्पिटल लिमिटेड।

आलोक सामन्तराय
कम्पनी रजिस्ट्रार
उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम 1956 और मैसर्स मेहताब टाईल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

ग्वालियर-474009, दिनांक 16 जून 2003

सं. आर.ओ.सी.-जी./560(3)/790--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इस सूचना के दिनांक से तीन मास की समाप्ति पर मैसर्स

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 12th June 2003

No. F.20/2003-SCA(I).—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint the following Officer and Member of Staff of this Registry to the posts with effect from the dates mentioned against each, until further orders :—

Sl. No.	Name & Designation	Post to which promoted/ appointed and date
1.	Shri Mange Ram Jain, Section Officer	Promoted to officiate as Assistant Registrar w.e.f the forenoon of June 10, 2003
2.	Mrs. Aruna Seth, Assistant	Promoted to officiate as Section Officer w.e.f. the afternoon of June 10, 2003

A.L. JAIN
Additional Registrar (Admn.)

No. F.20/2003-SCA(I).—Shri Ram Nath Lakhanpal, Offg. Joint Registrar and Ms. Kaushalya Mirani, Offg. Assistant Registrar have retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of May 31, 2003 on their attaining the age of superannuation.

A. L. JAIN
Additional Registrar (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 13th May 2003

No. DPAD5/2003/0/01889/3/5/2003-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri Dhan Kishore as Public Prosecutor in C.B.I. as a direct recruit w.e.f. 6.5.2003(F.N.) on the recommendations of UPSC until further orders.

He will be on probation for a period of one year.

S.S. GULIA
Administrative Officer (Estt.)

No. DPAD5/2003/0/01892/3/17/87-AD.V.—The President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar Sharma, Sr.PP, CBI as Dy. Legal Adviser in the CBI with effect from the forenoon of 28.4.2003 until further orders.

S.S. GULIA
Administrative Officer (Estt.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE

New Delhi-110003, the 16th June 2003

No. 13/5/2002-Adm-(FS).—The President is pleased to appoint Shri Narinder Singh, Deputy Government Examiner of Questioned Documents as Government Examiner of Questioned Documents in the office of Government Examiner of Questioned Documents, Kolkata under the Directorate of Forensic Science with effect from 31.05.2003 (AN) in an officiating capacity, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-.

DR. M. S. RAO
Director (FS)

BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 10th June 2003

No. 3/2/2002-Admn.—Consequent upon superannuation from Government service, Shri L. C. Amarnathan, IPS (OR : 67), Director General, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, New Delhi relinquished charge of the post of Director General Bureau of Police Research and Development, New Delhi on the afternoon of 31st May, 2003.

A. K. SOOD
Assistant Director (Admn.)

MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS
SECURITY PAPER MILL

Hoshangabad-461005, the 9th June 2003

No. 7(119)/2330.—Based on the recommendation of the Departmental Promotion Committee Group 'B', to terminate, the probation period of Shri M.L. Joshi, Technical officer (Production) with effect from 28.03.2003.

ASHWANI KUMAR
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
[OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
GUJARAT]

Ahmedabad, the 2003

The Accountant General (A&E) is please to promote Shri D.P. Panchal, D.A.O. Gr. II (Non-Gazetted) as Divisional Accounts Officer Grade-I Group 'B' (Gazetted) in the scale of Rs. 6500-200-10,500 with effect from 03.01.2003 until further orders.

Sd/- Illegible
Dy. Accountant General (A&E)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (AUDIT), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-50004, the 9th June 2003

Principal Accountant General (Audit), I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to promote the following Assistant Audit Officer (Civil) of this Office to the cadre of "Audit Officers" (Civil) in the Scale of Rs. 7,500-275-13,500 with effect from the date mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the Officer	Office Order No. & Date	Date of Assumption of charge
	S/Sri		
1.	P. Venugopala Rao	32/02.06.2003	02.06.2003 F.N.
2.	Kishnan Rao	32/02.06.2003	02.06.2003 A.N.
3.	T. Nagi Reddy	32/02.06.2003	02.06.2003 F.N.
4.	Pophale Pramod	32/02.06.2003	02.06.2003 F.N.

The above promotion are ordered without prejudice to the claims of their seniors, if any and subject to the result of the Writ Petitions, if any, pending in the Andhra Pradesh High Court/Supreme Court of India/Central Administrative Tribunal etc.

They should exercise option within one month from the date of promotion in terms of Government of India O.M. No. F.7/1/80-Estt. (P.I.) dated 26.09.1981 and F.13/26/82-Estt. (P.I.) dated 08.02.1983.

Sd./-Illegible

Dy. Accountant General (Administration)

Principal Accountant General (Audit), I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of Sri D. Joseph, Asstt. Audit Officer (Civil) with effect from 31.05.2003 A.N.

Sd./-Illegible

Dy. Accountant General (Administration)

Principal Accountant General (Audit)-I, Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officers and Audit Officers (Civil) with effect from the date(s) noted against their names:—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of retirement
	S/Shri	
1.	M. Appanna	31.05.2003 A.N.
2.	Y. V. Subba Rao	31.05.2003 A.N.
3.	M. Sarveswara Sastry	31.05.2003 A.N.
4.	B. Ch. Gopala Krishna	31.05.2003 A.N.
5.	T. Nageswara Sas try	31.05.2003 A.N.

Sd./-Illegible

Dy. Accountant General (Administration)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT), KERALA

Thiruvananthapuram, the 10th June 2003

No. OE(Entt)I/Pen/10-2/2003-2004.—The following officials of the Office of the Accountant General (Audit), Kerala, Thiruvananthapuram have retired from Government Service on the dates noted against their names.

Sl. No.	Name & Designation	Date of Retirement	Remarks
1.	Shri. Franklin Knox, . Sr. Audit Officer	31.05.2003 AN	Superannuation
2.	Shri G. Chandrasekharan, Sr. Audit Officer	31.05.2003 AN	Superannuation
3.	Smt. NK Pdmaja Devi, Sr. Audit Officer	31.05.2003 AN	Superannuation
4.	Smt. T. Sukumari Amma Sr. Pvt. Secretary	31.05.2003 AN	Superannuation
5.	Shri: GP Rajendran, Sr. Audit Officer	31.05.2003 AN	Superannuation
6.	Shri. PM. Hussain Kunhi, Sr. Audit Officer	31.05.2003 AN	Superannuation
7.	Shri. K. Remakrishna Pillai, Asst. Audit Officer	31.05.2003 AN	Superannuation

Sd./-Illegible

Dy. Accountant General (Administration)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
(OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF
DEFENCE ACCOUNTS)

New Delhi-110066, the 10th June 2003

No. AN-I/1419/4/Vol. III:—The following probationers have been confirmed in the Junior Time Scale of the Indian Defence Accounts Service with effect from the dates shown against each:—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date confirmation
	S/Shri		
1.	Hari Har Mishra	1998	03.01.2001
2.	Sanjay Verma	1998	03.01.2001
3.	Sudhir R.N.	1998	04.01.2001
4.	Uma Shankar Prasad Kushwaha	1998	03.01.2001
5.	Parneet Singh	1998	03.01.2001
6.	M. Shanker	1998	03.01.2001

KUPPASWAMY

Asstt. Controller General of Defence
Accounts (Admin.)

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 12th June, 2003

No. A-19018/1659/2003-Admn(g).—the Development Commissioner (Small Scale Industries) is pleased to appoint Shri Chakradhar S. Dodke, Small Industry Promotion Officer (Industrial Management and Training), small Industries Service Institute, Nagpur as Assistant Director (Grade II) (Industrial management and Training) on officiating basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 under Small Industry Development Organisation in the Branch Small Industries Service Institute, Tura (under small Industries Service Institute, Guwahati) with effect from the forenoon of 20.05.2003 until further orders.

S.V.N. PILLAI

Deputy Director (Admn.)

KHAN MANTRALAYA
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016 the 10th June.2003

No. 2013/B/A-19011(1-SS)/92/19A—Dr. Sanjay Sanyal relinquished the charge of the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India on resignation, duly accepted by the Director General, Geological Survey of India, with effect from 06.01.02(AN) to take up his new assignment as Lecturer in Jadavpur University, Kolkata.

S.K. SINHA

Senior Administrative Officer
for Director General Geological Survey
of India

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 6th June 2003

No. A-19011/75/2002-Estt. App—"Shri K.S. Nagaraja Rao, Assistant Controller of Mines, Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the After-Noon of 31.5.2003 on attaining the age of Superannuation".

S.K. BATAV

Administrative officer Indian
Bureau of Mines

No. A-19011/211/2002—Estt. App—"Shri P.N. Deo, Suptdg. Officer Ore Dressing, Indian Bureau of Mines has relinquished charge on the After-Noon of 31.5.2003 on attaining the age of superannuation".

S.K. BATAV

Administrative Officer
Indian Bureau of Mines

ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD

Mumbai-400094, the 4th June 2003

Ref. AERB/10/I Admn./513—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Smt. Sumambika Panicker, Assistant, to officiate as Assistant Personnel Officer on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500 from 10.3.2003 to 11.4.2003 in the same Board vice Shri C.K. Vijayan, Assistant Personnel Officer promoted.

N.S. NAIR

Administrative Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 28th May 2003

No. 20.3.(3)/2002-CCS/13—The President is pleased to appoint Shri P. Mohan Babu, Administrative Officer-II (Scale of pay Rs. 7500-12000), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Administrative Officer-III(Scale of pay Rs. 10000-15200) in the Centre for Advanced Technology, Indore with effect from the forenoon of 21.4.2003 until further orders.

UMA MAHADEVAN

Deputy Secretary

The 30th May, 2003

No. 21/9(1)2003-CCS/15—The President is pleased to appoint Shri C.N. Gadgil, Dy. controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000-15200), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department as Joint Controller (F&A) (Scale of pay Rs. 12000-16500) in the same Directorate on ad-hoc basis for the period from 31.03.2003 (FN) to 30.04.2003 (AN).

UMA MAHADEVAN

Deputy Secretary

No. 22/3(3)/2002-CCS/16:—The President is pleased to appoint Shri N.D. Khopkar, Assistant Purchase Officer (Scale of pay Rs. 6500-10500), Directorate of Purchase & Stores, Mumbai of this Department as Purchase Officer (Scale of pay Rs. 10000-15200) in the same Unit with effect from the forenoon of 05.05.2003 until further orders.

UMA MAHADEVAN

Deputy Secretary

No. 22/7(1)/2002-CCS/14:—The President is pleased to appoint Sh. M. S. Ganesan, Assistant Purchase Officer (Scale of pay Rs. 6500-10500), MRPU, Directorate of

Purchase & Stores, Chennai of this Department as purchase Officer (Scale of pay Rs. 10000-15200) in the same Unit on ad-hoc basis for the period from 13.01.2003 (AN) to 14.02.2003 (FN).

UMA MAHADEVAN
Deputy Secretary

No. 20/3(1)/2003-CCS/17—The President is pleased to appoint Shri P.O. Karunakaran, Chief Administrative Officer (Scale of pay Rs. 12000-16500), Nuclear Fuel complex, Hyderabad of this Department as Deputy Chief Executive (A) (Scale of pay Rs. 14300-18300 in the same Unit with effect from the forenoon of May 3, 2003 until further orders.

UMA MAHADEVAN
Deputy Secretary

No. 26/2(1)2003-CCS/18—The president is pleased to appoint Shri G.L. Huriwal, Deputy Chief Security Officer (Scale of pay Rs. 10000-15200), Directorate of construction, Services & Estate management, Mumbai of this Department as Chief Security Officer (Scale of pay Rs. 12000-16500) in the same Directorate with effect from the forenoon of 12.05.2003 until further orders.

UMA MAHADEVAN
Deputy Secretary

Mumbai-400001, the 13th June 2003

No. 26/2(1)/2003-CCS/19—On attaining the age of superannuation, Shri M. Satyanarayana, Chief Security Officer (Scale of pay Rs. 12000-16500), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department, retired from Government service on 30.4.2003 (AN).

SOBHA DEVI N.
Under Secretary

(Nuclear Fuel Complex)

Hyderabad-500062, 11th June 2003

Ref: NFC/ADM/PEN/EC-1603/848—On attaining the age of superannuation, Shri D. Chenna Krishna Reddy, Scientific Officer 'E' (Scale of pay of Rs. 12000-375-16500) on nuclear Fuel Complex, Department of Atomic

Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2003 (AN).

T.Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

Ref. NFC/ADM/EC-1038/849—On attaining the age of superannuation, Shri V. Nallaiah, Scientific Officer 'C' (Scale of pay of Rs. 8000-275-13500) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2003 (AN).

T.Y. PRAHALAD RAO
Administrative Officer

Atomic Minerals Directorate for Exploration and
Research

Hyderabad-500016, 10th June 2003

No. AMD-51(59)/2002-Pen/1102—On attaining the age of superannuation, the following Officer has relinquished the charge of his post in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the date mentioned:

S.No.	Name & Designation	Date of Relinquishment.	Event
1.	Shri R Sreehari Scientific Officer/H	31.05.2003	Superannuation

K. MOHAN RAO
Chief Administrative and Accounts Officer

Ministry of Water Resources,
(Central Ground Water Board.)

NH-IV, Faridabad, 12th Jun 2003

No. 3-1421/2003-Engg. Estt/4511—On the recommendation of the DPC Sh K.N.R. Pillai is promoted to the post of Driller-in-charge GCS (Gr.B) (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7500-250-12000/- in Central Ground Water Board on temporary basis w.e.f. 2.5.2003 (F.N.).

ASHIS. CHAKRABORTY
Executive Engineer For Director (Admn)

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Verma Broilers Farms Private Limited.

New Delhi-110003, the 4th June 2003

No. U/s 560(3)/05/30578/2531.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date hereof, the name of the M/s Verma Broilers Farms Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

DINESH CHAND
Dy. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s Santusthi Finance Private Limited.

New Delhi-110003, the 5th June 2003

No. U/s 560(3)/85/078246/2589.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of one month from the date hereof, the name of the M/s Santusthi Finance Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

M. K. BAGRI
Asstt. Registrar of Companies
N.C.T. of Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Core Technology Private Limited.

Kanpur-208001, the 3rd June 2003

No. 560(3)/LC/8025/6846.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s Core Technology Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Radhika Palma India Private Limited.

Kanpur-208001, the 4th June 2003

No. 560(3)/LC/24481/6869.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the M/s. Radhika Palma India Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will

be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. R. CHATURVEDI
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Camelot Imports Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/560(5)/17382.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Camelot Imports Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ocean Finvest Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/19111.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ocean Finvest Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. SNV Investment Services Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/15687.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. SNV Investment Services Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lems Portfolio Management Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/15781.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lems Portfolio Management Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. N.P. Holographics Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/17298.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. N.P. Holographics Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Impart Foods Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/18889.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Impart Foods Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Banera Exports Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/19989.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Banera Exports Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Asahi Finvest Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/17022.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Asahi Finvest Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Humanity Publication Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/15400.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Humanity Publication Private Limited,

has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Saini Motors Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/3226.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Saini Motors Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Punjab Pumps Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/13961.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Punjab Pumps Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jahangirabad Hire Purchase Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/17405.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jahangirabad Hire Purchase Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. J.B. Dying and Exports Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/22918.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. J.B. Dying and Exports Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Garg Fastners Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/10692.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Garg Fastners Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fine India Plantations Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/20885.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Fine India Plantations Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Four Season Hire Purchase Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/15445.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Four Season Hire Purchase Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lancer Organics Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/15074.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lancer Organics Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Alpine Papers Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/15792.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956

that, the name of M/s. Alpine Papers Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dilshad Hire Purchase Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/16156.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Dilshad Hire Purchase Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Bedi Engineering Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/17395.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Bedi Engineering Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hydrotech Projects Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/21702.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Hydrotech Projects Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Multicard Discounts Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/19035.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Multicard Discounts Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Knight Organics Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/17810.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Knight Organics Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Seabird Investments & Traders Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/18877.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Seabird Investments & Traders Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sanraj Marketing Private Limited.

Jalandhar City, the 5th June 2003

No. ROC/ 560(5)/6538.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sanraj Marketing Private Limited, has this day been struck off and the said Company is dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gurdesb Finance Private Limited.

Jalandhar City, the 9th June 2003

No. PC/ 560(3)/14128/1756.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Gurdesb Finance Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M.J. Finance Co. Limited.

Jalandhar City, the 9th June 2003

No. PC/ 560(3)/15879/1766.—Notice is hereby given

pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. M.J. Finance Co. Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Darlaghat Greenfield and Allied Services
Limited.

Jalandhar City, the 9th June 2003

No. PC/ 560(3)/17761/1797.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Darlaghat Greenfield and Allied Services Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Super Leasing and Finance Limited.

Jalandhar City, the 9th June 2003

No. PC/ 560(3)/15561/1800.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Super Leasing and Finance Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ess Ess Spun Pipe Private Limited.

Jalandhar City, the 9th June 2003

No. PC/ 560(3)/17261/1803.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Ess Ess Spun Pipe Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND
Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Juneja Securities Private Limited.

Jalandhar City, the 9th June 2003

No. PC/ 560(3)/18465/1806.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Juneja Securities Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND

Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Darlaghat Recreational and Transport Services Private Limited.

Jalandhar City, the 9th June 2003

No. PC/ 560(3)/17760/1809.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. Darlaghat Recreational and Transport Services Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND

Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. New Matharu Service Station Private Limited.

Jalandhar City, the 9th June 2003

No. PC/ 560(3)/17495/1812.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. New Matharu Service Station Private Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND

Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M.J. Finance Co. Limited.

Jalandhar City, the 9th June 2003

No. PC/ 560(3)/15879/1815.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of 3 months from the date hereof the name of M/s. M.J. Finance Co. Limited, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved.

DIWAN CHAND

Registrar of Companies
Punjab, H. P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sunshine Laminates Private Limited.

Gwalior-474009, the 10th June 2003

No. ROC-G/STA/Sec.560(3)/6684/709.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Sunshine Laminates Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH

Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hariom Transport Company Private Limited.

Gwalior-474009, the 10th June 2003

No. ROC-G/STA/Sec.560(3)/6799/712.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Hariom Transport Company Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH

Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahabali Memorial Hospital Private Limited.

Gwalior-474009, the 10th June 2003

No. ROC-G/STA/Sec.560(3)/6761/717.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Mahabali Memorial Hospital Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH

Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gani Patel Hospital Private Limited.

Gwalior-474009, the 10th June 2003

No. ROC-G/STA/Sec.560(3)/6874/718.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Gani Patel Hospital Private Limited unless cause is shown to the

Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Dawn Horticulturist Private Limited.

Gwalior-474009, the 10th June 2003

No. ROC-G/STA/Sec.560(3)/6232/721.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Dawn Horticulturist Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Betwa Constructions Private Limited.

Gwalior-474009, the 10th June 2003

No. ROC-G/STA/Sec.560(3)/6271/724.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Betwa Constructions Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jhoolal Benefit & Finance Co. Private Limited.

Gwalior-474009, the 16th June 2003

No.ROC-G/STA/Sec.560(3)/2002/769.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Jhoolal Benefit & Finance Co. Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Casbee Chains Private Limited.

Gwalior-474009, the 16th June 2003

No.ROC-G/STA/Sec.560(3)/2002/772.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Casbee Chains Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mahanadi Extrusions Private Limited.

Gwalior-474009, the 16th June 2003

No.ROC-G/STA/Sec.560(3)/2002/775.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Mahanadi Extrusions Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vishwa Bhraman Printers & Publishers Private Limited.

Gwalior-474009, the 16th June 2003

No.ROC-G/STA/Sec.560(3)/2002/778.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Vishwa Bhraman Printers & Publishers Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fernbros Heat Exchangers Private Limited.

Gwalior-474009, the 16th June 2003

No.ROC-G/STA/Sec.560(3)/2002/781.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Fernbros Heat Exchangers Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will

be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Perfect Consulting Engineers Private Limited.

Gwalior-474009, the 16th June 2003

No.ROC-G/STA/Sec.560(3)/2002/784.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Perfect Consulting Engineers Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Osbert Pharmaceuticals Private Limited.

Gwalior-474009, the 16th June 2003

No.ROC-G/STA/Sec.560(3)/2002/787.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Osbert Pharmaceuticals Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Mehtab Tiles Private Limited.

Gwalior-474009, the 16th June 2003

No.ROC-G/STA/Sec.560(3)/2002/790.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after the expiration of 3 (Three) months from the date hereof the name of M/s. Mehtab Tiles Private Limited unless cause is shown to the Contrary, will be Struck off from the Register and the said company will be dissolved.

NAUBAT SINGH
Registrar of Companies
Madhya Pradesh & Chhattisgarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following company

Cuttack-753001, the 11th June 2003

No.ROC/TS/560/4659/622.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the company has this day been struck off from the registrar of companies and is dissolved.

Sl.	Co.No.	Name of the Company
1.	15-04659	M/s. Associated Engineers & Erectors Private Limited.

ALOK SAMANTARAI
Registrar of Companies,
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following company

Cuttack-753001, the 11th June 2003

No.ROC/TS/560/2980/623.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the company has this day been struck off from the registrar of companies and is dissolved.

Sl.	Co.No.	Name of the Company
1.	15-02980	M/s. Creative Security Agency (Orissa) Private Limited.

ALOK SAMANTARAI
Registrar of Companies,
Orissa

In the matter of the Companies Act, 1956 and
of the following company

Cuttack-753001, the 11th June 2003

No.ROC/TS/560/4929/624.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 the name of the company has this day been struck off from the registrar of companies and is dissolved.

Sl.	Co.No.	Name of the Company
1.	15-04929	M/s. Lunar Hospital Limited.

ALOK SAMANTARAI
Registrar of Companies,
Orissa